

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, नवगछिया

Email Id-eeavgachhiya@gmail.com

पत्रांक 42

नवगछिया / दिनांक 09/01/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल नवगछिया।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
विश्वश्वरैया भवन, वेली रोड़, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना(NDB) अन्तर्गत पथ में आबंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न विवरणी अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (NDB) के निर्माण कार्य मद में राशि 10.75657 लाख रुपये का आबंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि संवेदक द्वारा कराये गये निर्माण कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनु०-पथ विवरणी, उपयोगिता प्रमाण-पत्र,
मापी पुस्त की छाया प्रति।

विश्वसभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमंडल नवगछिया

09/01/2024

FORM GFR 19-A
(See Government of India's Decision (I) below Rule-150
Form of Utilization Certificate up to the Month-December 2023
MUKHYA MANTRI GRAM SAMPAK YOJNA(NDB)

PIU - R.W.D. Works Division Nalgachhiya

SL. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1.	Construction of Rural Roads under MUKHYA MANTRI GRAM SAMPAK YOJNA(NDB)	Letter No:BRDA(HQ)MMGSY(NDB)-101/18-Part IV-119WE Patna .Dated:04.09.2023	2.70858	Certified that out of Rs.255.71270 Lakhs received upto the years 2022-23 in favour of Ex. Engineer, RWD Bihar, Nalgachhiya a sum of Rs 255.56099 lakhs has been utilized for the purpose of MMGSY(NDB) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs.0.27466 lakhs the end of the period under.
Total			2.70858	

2. Certified that I have satisfied may self that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.
 - i. Kinds of Checks exercised-
 - ii. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer
 - iii. Periodical inspection has been conducted by Executive engineer/Superintending Engineer
 - iv. Construction materials have been tested.
 - v. Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer
 - vi. All other codal formalities have been observed.
3. Physical Progress achieved-
 - i. Construction of Road Works
 - ii. Construction of C.D. Works


[Signature]
Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division Nalgachhiya
26/10/2023

Rural Works Department

MMGSY(NDB) ALLOTMENT REQUISITION FORMAT

Name of Division:- RWD Works Division Navgachhiya

Sl. No.	Year	Name of Road	Name of Contractor (in English)	Administrative Approval(AA)		Agreement Amount (In Lacs)		Allotment Received (in Lakhs)	Total Expenditure (as per MIS)	Value of Measurement (In Lakhs)	Current Demand (In Lakhs)	Remarks
				Length (In Km)	Amount (In Lacs)	Main Works	Maintenance					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2018-19	RAILWAY GUMTI TO PACHHEYARI BANIA TOLA	PANKAJ KUMAR CHOUDHARY	0.900	56.345	44.27691	5.42823	30.82425	30.82066	41.58082	10.75657	
Total											10.75657	


 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Navgachhiya
 09/10/2019

11/16/59 (MDB)

Railway Lumli to Pachheyari Benia to Ja
Schedule XLV Form N.134.

P.W.D. Choudhary Construction

Margachhiya

DIVISION

Ranraj Kumar Choudhary SUB DIVISION

Block :- Rangra Chowr 890

MEASUREMENT BOOK

(Continuation)